



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1934 (श0)
(सं0 पटना 36) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

18 दिसम्बर 2012

सं0 22/नि0सि0(सम0)—02—09/2009/1399—श्री राजवंश राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा के विरुद्ध बहेड़ी प्रखण्ड, दरभंगा के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के चार योजनाओं का गलत ढंग से हुए टेंडर रद्द करने एवं ग्रामीण रास्ता को जमींदारी बांध बनाकर 1 करोड़ 46 लाख (एक करोड़ छियालिस लाख) रुपये सरकारी धन को लूटने के आरोप की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपित बिन्दुओं के आलोक में जांच प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। केवल कार्यों के कार्यान्वयन को विभाग द्वारा स्थगित कर दिये जाने एवं भुगतान नहीं होने के कारण लूट खसोट के आरोप को सही नहीं माना गया है। लेकिन विभागीय समीक्षा में आरोप एवं साक्ष्यों के आधार पर गलत मंशा से कार्य की निविदा निकालने की पुष्टि होती है, क्योंकि पूर्व में इसी बांध पर विभिन्न एजेंसी द्वारा वर्ष 2006—07 एवं 2007—08 में कार्य करवाया जा चुका था। इस प्रकार लूट खसोट की नियत से चार योजनाओं को तैयार कर निविदा निकालने के लिए श्री राय प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता से विभागीय पत्रांक 1167 दिनांक 14.9.11 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि कार्यपालक अभियन्ता द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी परन्तु मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्गत निदेश के फलस्वरूप चारो योजनाओं का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट हुआ कि क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा प्राक्कलन तैयार करने के पूर्व पूरी जांच पड़ताल नहीं की गयी। बांध को जमींदारी बांध घोषित कर

दिया गया तथा वैसे योजनाओं की निविदा भी आमंत्रित कर दी गयी जिस पर पूर्व से ही कार्य प्रगति पर था जो गलत मंशा का स्पष्ट परिचायक है।

अतः उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राय को निम्नांकित दण्ड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है:-

1. असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन प्रक्रम पर एक वर्ष के लिए अवनति।

सरकार का उक्त निर्णय श्री राजवंश राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

भरत झा,

सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 36-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>